

September 04, 2025

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Name of Scrip: LEMONTREE

BSE Scrip Code: 541233

Subject: Newspaper Publication – Information to Shareholder regarding Notice of 33rd Annual General Meeting (AGM) and e-voting

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. September 04, 2025 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) confirming completion of dispatch of the Notice of 33rd Annual General Meeting (AGM); the Integrated Annual Report for the FY 2024-25 and providing information pertaining to e-voting and conducting AGM through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Lemon Tree Hotels Limited

Pawan Kumar Kumawat Company Secretary & Compliance Officer M. No: A25377

Encl: a/a

Lemon Tree Hotels Limited

FINANCIAL EXPRESS

CANARYS AUTOMATIONS LIMITED (formerly Canarys Automations Private Limited) CIN: L31101KA1991PLC012096

Reg Off: No. 566 & 567, 2 nd Floor, 30 th Main, Attimabbe Road, Banagirinagara,

Banashankari 3 rd Stage, Bengaluru 560085, Karnataka India Contact No: +91 98458 62780: Email Id: fin@ecanarys.com: website: www.ecanarys.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

The 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of M/s. CANARYS AUTOMATIONS LIMITED (the "Company") will be held on, Tuesday, 30th September 2025, at 04:00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visua Means ("OAVM") (hereinafter referred to as "Notice") pursuant to applicable of provisions of the Companies Act. 2013 (the "Act") read with General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 read with General Circular No. 20/2020 dated $\mid 05^{\text{\tiny{th}}}$ May, 2020, General Circular No. 02/2022 dated $05^{\text{\tiny{th}}}$ May, 2022 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEB Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "relevant circulars"), and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), to transact the businesses as set out in the Notice convening the 34th AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-2025 will accordingly be sent only through electronic mode to those Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the respective Depositories as on 29th August 2025 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. A letter containing the weblink of the Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent at the registered address of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company RTA/Depository Participant(s).

The Company will be providing to its members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the AGM by M/s. MUFG Intime India Private Limited (formerly M/s. Link Intime India Private Limited) ("RTA") at www.in.mpms.mufg.com. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User Id and password for casting their vote through remote

Members who have not registered their email address are requested to register the same at the earliest:

a. In respect of shares in demat form - with their Depository Participants (Dps)

b. In respect of shares held in physical form – (I) by writing to the company's Registrar and Share Transfer agent viz. M/s. MUFG Intime India Private Limited (formerly M/s. Link Intime India Private Limited), with details of Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), and AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) at Address: C 101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400083 OR (ii) by sending email to instameet@in.mpms.mufg.com

Members holding shares in Demat form can also send email to the aforesaid email Id to register their email address for the limited purpose of receiving Notice of 34th AGM and Annual Report for the financial year 2024-25.

Notice convening the 34th AGM and Annual Report for FY 2024-25 will also be available or the websites of the Company at www.ecanarys.com. RTA at www.in.mpms.mufg.com and on stock exchange viz. NSE at www.nseindia.com in due course.

This advertisement is being issue for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars.

Date: 04th September 2025 Place: Bengaluru

Ambikeshwari M A **Company Secretary & Compliance Officer**

For CANARYS AUTOMATIONS LIMITED

INFORMED TECHNOLOGIES INDIA LIMITED CIN L99999MH1958PLC011001

Regd. Office: 'Nirmal', 20th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021, Tel# +91 22 2202 3055/66

Email: itil investor@informed-tech.com, Website: www.informed-tech.com NOTICE OF 67[™] ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 67" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) on Friday, September 26, 2025 at 12:00 P.M. (IST). The Venue of

In accordance with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3" October, 2024 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI"), the Notice of 67th AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2024-25 have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s) (DP). The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on 3" September, 2025. Additionally, in accordance with Regulation 36 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company has also sent a letter to shareholders, whose e-mail lds are not registered with Company/RTA/DP, providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for Financial Year 2024-25 can be accessed. The copy of the Notice of 67" AGM and Annual Report is also available on the Company's website www.informed-tech.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection as per the procedure provided in point no. 20 of the notice of AGM.

the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. 'Nirmal', 20" Floor, Nariman Point,

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on Friday, 19th September, 2025 (cut-off date), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/. Only those members whose names are recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in Notice of 67" AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The remote e-voting period will commence 9:00 A.M. (IST) of Tuesday, 23th September, 2025 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Thursday, 25th September, 2025. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5:00 P.M. (IST) on Thursday, 25° September, 2025.
- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify is subsequently.
- Members, who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or itil investor@informed-tech.com. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the member may use their existing USER ID and Password, and cast their vote.
- Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the meeting.
 - The procedure for e-voting is available in the Notice of 67th AGM. In case of queries/ grievances, you may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAOs) and 'e-voting user manual' for Members available in the downloads section of the e-voting website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com/. Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can send a request at evoting@nsdl.com or call on 022-4886 7000;
 - Contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at the designated email Id: evoting@nsdl.com;
 - The notice of 67th AGM is available on the Company's Website https://informed-tech.com/, on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, 20th
 - September, 2025 to Friday, 26" September, 2025 (both days inclusive). The Company has appointed Mr. Sanam Umbargikar, Practicing Company Secretary, (FCS No. 11777 and
 - CP No. 9394), to act as the Scrutinizer, to Scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent
- Members may attend the AGM through VC/OAVM through NSDL e-voting system at www.evoting.nsdl.com. Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending in duly filled Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC details or changes/ updation thereof), to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company- MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) at C 101. Embassy 247, L.B.S.Marg, Vikhroli (West),

For Informed Technologies India Limited

Ms. Neha Rane Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A59050

ROYAL CUSHION VINYL PRODUCTS LIMITED CIN: L24110MH1983PLC031395

60 CD, Shlok, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W), Mumbai – 400 067 Tel: + 91 22 28603514, 16 Website: www.rcvp.in; Email id: legalho83@gmail.com Notice to the shareholders regarding 41st Annual General Meeting

Notice is hereby given that 41st Annual General Meeting (AGM) of the members of Roya Cushion Vinyl Products Limited (Company) is scheduled to be held on Monday September 29, 2025 at 3.30 PM (IST) through Video Conferencing (VC) / other Audio Video Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the notice of 41st AGM

-) The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. 14/2020 dated April 8 2020, 17/2020 dated April 13,2020 and subsequent circular issued in this regard lates being 09/2024 dated September 19, 2024 (MCA Circulars) have permitted holding of AGM through VC/OAVM. In compliance with MCA circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 (Act), 41st AGM of the Company will be held through VC/OAVM, without the presence of the members at a common venue. Members can join and participate in the 41st AGM through VC/OAVM facility only.
- In accordance with MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0156 dated November 11, 2024, the Company has completed the dispatch of Notice and Annual Report for financial year 2024-25 (Annual Report) on Wednesday, September 3, 2025 through electronic mode only to those members whose e-mail address are registered with Depositories as on Friday, August 29, 2025. The requirement for sending physical copies of the Notice and Annual Report has been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars. Any member who wishes to obtain a physical copy of Notice and Annual Report may write to the Company at legalho83@gmail.com from their registered email address mentioning DP ID 8 Client ID. The Notice and Annual Report can be downloaded from the following link https://rcvp.in/annual/Annual%20Report%202024-2025%2001092025.pdf. The same is also available on the websites of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com . A letter providing the web-link, where the Annual Report 2024-25 is available, will be sent to those members whose e-mail address is not registered with
-) The Deemed venue of 41st AGM shall be the registered office of the Company, i.e. 60 CD Shlok, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W), Mumbai – 400 067 India. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Act

E-Voting 4) In terms of the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on the General Meetings (SS-2) and MCA circulars, the Company is pleased to provide its members the facility of voting by electronic means (E-voting), which includes both remote E-voting and E-voting at 41st AGM. This facility enables members to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice. The Company has appointed NSDL as an authorised agency to provide the facility of E-voting. The detailed procedure for participating in the 41st AGM through VC/OAVM, along with instructions for remote E-voting and E-voting at 41st AGM forms an integral part of the Notice.

Members holding shares as on Monday, September 22, 2025 (Cut-off Date), may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice through E-voting provided by NSDL. All members of the Company are informed that:

The Ordinary and Special Businesses as set forth in the Notice will be transacted only

Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

ii. The remote E-voting will commence on Friday, September 26, 2025 at 9:00 am (IST) and will end on Sunday, September 28, 2025 at 5:00 pm (IST).

v. A person who has acquired shares and became a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date, may cast a vote by following the instructions for E-voting as provided in the Notice.

The members may note that a) The members who have cast their vote by remote Evoting prior to 41st AGM may participate in 41st AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through E-voting at 41st AGM; b) The members participating in 41st AGM and who had not cast their vote by remote Evoting, shall be entitled to cast their vote through E-voting at 41st AGM: c) Aperson whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date shall only be entitled to avail the facility of remote E-voting participate in 41st AGM through VC/OAVM facility and E-Other Information

6) The detailed procedure for the manner of registration of email address is provided in the

) If a member has any queries or issues regarding attending 41st AGM. E-voting from the NSDL E-voting System, member may write to NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-48867000.

) The company has appointed Mrs. Padma Loya (Membership No. 25349 COP 14972) of

M/s. Loya & Shariff, Practising Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process (including e-Voting at the meeting) in a fair and transparent) The Shareholders may also contact the undersigned for any grievances connected with

Dated: September 3, 2025

electronic voting, Ms. Sarita Khamwani, Company Secretary, att legalho83@gmail.com or call on 022-28603514 for Royal Cushion Vinyl Products Limited

Mahesh Shah **Managing Director** DIN: 00054351 Place: Pune

: 3rd September, 2025

SHARP INDIA LIMITED Read Office: Gat No.686/4. Koregaon Bhima. Taluka: Shirur. Dist. Pune – 412216

Mumbai - 400083 or at mt.helpdesk@in.mpms.mufg.com from their registered email id.

Date: - 03.09.2025

Place:- Mumbai

Phone No.: (02137) 670000/01 Website: www.sharpindialimited.com Email: secretarial@sil.sharp-world.com CIN: L36759MH1985PLC036759

NOTICE OF 40th AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 26th September 2025 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No.09/2024 dated September 19, 2024 and the earlier circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-

PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with the earlier circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "MCA and SEBI Circulars") permits holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the Circulars, the AGM of the Company is being held through VC /OAVM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM. The 40th Annual Report of the company containing notice of the 40th Annual General Meeting along with the explanatory statement Director's Report, Auditor's Report, Audited Accounts etc. of the Company for the financial year ended 31st March 2025 have been sent by e-mail to all the members on September 3, 2025, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with relevant circulars. For those members whose e-mail addresses are not

post. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013. Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule No. 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation 2015, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 40th Annual General meeting of the Company be transacted by electronic voting (remote e-voting Facility) through the e-voting services provided by MUFG Intime India Private Ltd (Insta vote).

registered with the Company / RTA / DPs, a letter providing the web-link for accessing Notice of AGM and Annual Report is sent by

a) The remote e-voting will commence on Tuesday 23rd September, 2025 at 09:00 a.m. and ends on Thursday, 25th September, 2025 at 05:00 p.m. The e-voting module shall be disabled by MUFG Intime for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The company is providing the e-voting facility to all the members holding shares in physical or dematerialized form as of the cut-off date 19th September 2025.

b) The members may note that i) remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m on 25th September 2025 and the same may be disabled by MUFG Intime India Pvt Ltd and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. (detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting) ii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 40th AGM may participate in 40th AGM through VC/OAVM facility but will not be entitled to cast their vote again through e-voting system during 40th AGM. iii) The members participating in 40th AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system during 40th AGM; and iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut-off date only shall be able to avail the facility of remote e-voting, participating in the 40th AGM as well as e-voting during 40th AGM.

c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 40th AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 19th September 2025 may obtain the login Id and password by sending a request at umesh.sharma@in.mpms.mufg.com. However if the member is already registered with MUFG Intime India Pvt Ltd for e-voting, then existing user ID and password can be used for e-voting.

d) The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

e) Mr. Sridhar G. Mudaliar failing him Mrs. Meenakshi Deshmukh, Partners M/s. SVD & Associates, Company Secretaries has beer appointed as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and caste vote through the e-voting system during the meeting in fair and transparent manner. A copy of the 40th AGM Notice and Annual Report for Financial Year 2024-25 is available on the website of the Company at www

sharpindialimited.com and on the website of stock exchange at www.bseindia.com

g) Members are requested to intimate any change of address if any pertaining to their name, postal address, email address telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, name of the bank and branch details ECS Mandate, bank account number, MICR code, IFSC code, etc - For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs)

· For shares held in physical form: to the Company/ Registrar and Transfer Agents (RTA) in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023.

In case of any queries regarding remote e-voting, related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type Helpdesk details Shareholders holding Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a Individual securities in demat mode with NSDL request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 Individual Shareholders holding Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a securities in demat mode with CDSL request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in physical mode/ Institutional shareholders & evoting service Provider is

MUFGINTIME. In case shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode facing any technical issue in login may contact INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel

022 – 4918 6000 Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the company shall remain closed from Saturday 20th September 2025 to Friday, 26th September 2025 (both days inclusive) for the purpose of 40th Annual General Meeting of the Company.

> By the order of the Board of Directors For Sharp India Limited Chandranil Belvalkar **Company Secretary**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



BEST AGROLIFE LIMITED

CIN: L74110DL1992PLC116773 Regd. & Corporate Office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Ph: 011-45803300 | Email: info@bestagrolife.com | Website: www.bestagrolife.com

INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated Jan 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the 34th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of BEST AGROLIFE LIMITED will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the

Financial Year 2024-25 along with Reports of the Board of Directors and the Auditors and other documents

required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode

to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). A letter providing weblink for accessing the Notice and Annual Report will be sent to those members who have not registered their email addresses with the Company/RTA/DP. The instructions for joining and manner of participation in the AGM has been provided in the Notice of the AGM, Members, who are holding shares in physical/ electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/ their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Members mentioning their name complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz. Aadhar Card, Driving Licence, Election Card, Passport, utility bill or any other Government document in support of the

demat form can update their email address with their Depository Participants. The shareholders may also contact to the Company at our Corporate Office in case of any clarification to register their email id & mobile Members holding shares in physical form who wish to avail NECS facility may authorize the Company with their NECS mandate in the prescribed form, which can be downloaded from the Company's website www.bestagrolife.com and the requests for payment of dividend through NECS should be sent latest by 23rd September, 2025 at info@bestagrolife.com and members holding shares in demat form who wish to avail NECS

address proof of the Members as registered with the Company for receiving the Annual Report 2024-25 along

with the AGM Notice by email to info@bestagrolife.com or info@skylinerta.com. Members holding shares in

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting has been provided in the

facility, may send mandate in the prescribed form to their respective Depository Participants.

The Company has fixed the record date September 23, 2025 for the purpose of determining the member entitled for receiving dividend for the Financial Year 2024-25 and the said notice is also available on the website of the company at www.bestagrolife.com The Notice of the AGM along with Annual Report will be placed on the website of the Company i.e.

www.bestagrolife.com and on the website(s) of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com For BESTAGROLIFE LIMITED

Place: New Delhi CS & Compliance Officer Date: September 3, 2025



Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: 201(A) 2nd Floor, A wing, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India - 400 051. Website: www.barodabnpparibasmf.in • Toll Free: 1800 267 0189

NOTICE NO. 62/2025

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the designated Scheme of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

Notice is hereby given to all the unitholders of Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund ("Scheme"), that following shall be the rate of distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of respective plan under the Scheme with Monday, September 08, 2025^{as the Record Date:} Name of the Cohema Name of Diago (Ontions NAV non-unit or on Distribution

Name of the Scheme	Name of Plans/ Options	NAV per unit as on September 02, 2025 (face value per unit of ₹10/-)	Distribution per unit#* (₹)
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10.8803	0.06
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10.4533 0.06	
^ or the immediately following Business Day if that day is not a Business		isiness Dav	

The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on

the distributable surplus available on the Record Date. * Net distribution amount will be paid to the unit holders under respective categories after deducting applicable

For the units held in physical form, amount of distribution will be paid to all unit holders whose names appear in the records of the Registrar at the close of business hours on the record date and for units held in demat

form, the names appearing in the beneficial owners master with the Depository as on the record date shall Pursuant to distribution under IDCW, NAV of the IDCW option of the scheme(s)

would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Authorised Signatory

Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

LEMON TREE HOTELS LIMITED (CIN: L74899DL1992PLC049022)

Regd. Office: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District, New Delhi - 110037

Tel. No.: 011 - 4605 0101

Website: www.lemontreehotels.com Email: sectdeptt@lemontreehotels.com



Date: September 03, 2025

NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION

In furtherance to the Notice published on August 29, 2025, for the 33rd AGM of the Company scheduled to be held on Thursday, September 25, 2025 at 1:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), this is to inform that in compliance with General Circular 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/ HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other related circulars issued by MCA and SEBI from time to time (collectively referred to as "Circulars"), the Notice of the 33rd AGM along with the Integrated Annual Report of the Company which inter-alia contains the Audited Financial Statements of the Company for FY 2024-25 (hereinafter referred to as "Integrated Annual Report"), have been sent through e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants as on August 22, 2025. The Company, in accordance with the Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has also sent letter to the shareholders who have not registered their email addresses with the Company, providing a direct web link to the Integrated Annual Report and Notice of AGM. The Notice of AGM and Integrated Annual Report are also available on the website of the Company www.lemontreehotels.com, website of Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The electronic dispatch of Integrated Annual Report through emails has been completed on Wednesday, September 3, 2025. The procedure to join the meeting through VC/OAVM and E-voting process is provided in the Notice of the AGM.

The Company through NSDL will be providing the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM and also the facility to attend the meeting.

The Remote e-voting shall commence on Sunday, September 21, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, September 24, 2025 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting facility will not be allowed beyond the said date and time. NSDL will disable the remote e-voting module after that. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. The cut-off date for determining entitlement of electronic voting is Thursday, September 18, 2025. The members who have cast their vote through remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Information and instructions comprising manner of remote e-voting and e-voting at AGM by members have been provided in the Notice of AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 18, 2025 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.com by mentioning their folio No. / DP ID and Client ID for casting their vote and attending the AGM. However, members who are already registered with NSDL for remote e-voting, can use their existing user ID and password

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting (before the AGM and during the AGM), Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-voting user manual for Members" available at downloads section of http://www.evoting. nsdl.com or call at 022- 48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, at evoting@nsdl.com or to the Compliance Officer on sectdeptt@lemontreehotels.com.

Pawan Kumar Kumawat

For Lemon Tree Hotels Limited

Company Secretary & Compliance Officer M. No: A25377

Date: September 3, 2025

Place: New Delhi

New Delhi

epaper.financialexpress.com

08-अगस्त-2025 तक **रु.9,42,442.52/-**

हीरो हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ०९, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057 फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148 संपर्क पताः- ए--६, तृतीय तल, सेक्टर--४, नोएडा – 201301

मांग नोटिस प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

धृकि अयोहरताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हापसिंग फाइनेंस लिमिटेड (म्प्प्र) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 को साथ पठित कारा 13(t2) के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋषीं / सह-तपारकर्ता(ओं / गारंटर(रों) (सभी एक साथ वा एक साथ 'बान्यकारी' के रूप में संदर्भित) / कानुषी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि(याँ) को संबंधित मांग नोटिस / सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस / सुचनाओं की तारीख से 60 दिनों के शीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतिया पंजीकृत बाक एडी द्वारा प्रदान की गयी. हैं और उजोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं. और उक्त दायित्वाधिकारियों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे लाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्याक्षय समय के दौरान किसी मी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सबंध में, एक बार किर, उक्त दावित्वाधिकारियों (याँ)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(याँ) को संबंधित नोटिस / सुबनाओं की तारीक से 60 दिनों के मीतर एचएचएकएल को भगतान करने के लिए नोटिस दिवा जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भूगतान और 🖊 या वसुली की तारीख तक, ऋण समझीते और अन्य दस्तावेजों 🖊 लेखों के साथ पढ़े. पवि कोई, उक्त दायित्वायिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देव चुकौती के लिए प्रतिमृति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभृति आस्तियों को क्रमशः उस दायित्वाधिकारी (याँ) द्वारा एकएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता	दायित्वाधिकारी (ऑ)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ऑ) /कानूनी प्रति	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल	मांग सूचना की तिथि	
संख्याः	निवि(ऑ) का नाम	बकाया देय रु. में	एलपीए की शिवि	
HHFLUCHOU18000000528,	विश्वजीत सिंह, नमिता सिंह,	19-08-2025 ftp	25-08-2025	
HHFLUCHOU19000000806 & HHFLUCLAP19000003867	वैष्णवी ट्रेडिंग कंपनी	₹. 60,42,963 / -	07-08-2025	

प्रतिभृति परिसम्पत्तियाँ अञ्चल संपत्तियाँ गिरवी संपत्तियाँ का विवरणः वलंट संख्या-101, क्षेत्रफल 1875 वर्ग यांनी 174.256 वर्ग मीटर (सुपर एरिया सहित), प्रथम तल पर, ब्लॉक-ए, टावर संख्या-टी-३, गोयल हाइट्स, खतरा संख्या 761, प्राम अनुरा, परगना तहसील और जिला, लखनऊ-227108। सीमाएँ पूर्व पर्लेट संख्या १०२, पश्चिम कॉमन वॉल टावर संख्या ४, उत्तर: खुला स्थान, दक्षिण: आम रास्ता और पर्लेट संख्या

* क्रयर जल्लेकित संबंधित दिवांड नोटिया में विशेष रूप से क्रयत वर पर अतिरिक्त खाउ आगे व्याप के साथ भगता और / या वसली की तारीख तक किए गए आकरिमक खर्च, लागत, चुल्क आदि। यदि जक्त दावित्वाधिकारी (याँ) द्वार एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विकल रहता है तो एचएचएफएल उक्त अभिनियम की चारा 13(4) और लाग् नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (याँ) / अचल नंपत्ति (संपत्तियाँ) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त वायित्वाधिकारी (यों) / कानूनी वारिशों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। ठक बस्यताकारियों / कानुनी उत्तराधिकारी /कानुनी प्रतिनिधि (यो) जो उक्त अधिनिधन के तहत एथएवएकएल की पूर नियात सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति / अकल संपत्ति को विक्री, पट्टे या अन्यक्षा के मध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निमिद्ध किया जाता है। कोई मी ध्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित निवर्मों के प्रावधानों का उल्लंधन करने का प्रयास करता है या उल्लंधन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंश के लिए उत्तरदावी

> कर्त डीरो वापसिंग फाइनेंस लिमिटेड. हस्ता./- अधिकृत अधिकारी

South West Pinnacle

साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः भूतल, प्लॉट संख्या 15, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003

फोनः +91 124 4235400, सीआईएनः L13203HR2006PLC049480 ईमेलः investors@southwestpinnacle.com, वेबसाइटः www.southwestpinnacle.com 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और बूक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोर्टिंग के संबंध में सूचना

एततद्वारा सुचित किया जाता है कि:

विनोकः 04-शितंबर-2025

स्थानः लखनक

- 1. मेसर्स साउथ वेस्टपिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड **("कंपनी")** के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को दोपहर 02:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") सुविधा / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से केवल सामान्य और विशेष व्यवसाय के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित है।
- कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 25 सितंबर, 2024 ('एमसीए सर्कूलर') और सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडीपीओडी२ / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक ७ अक्टूबर, 2023 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी सर्कुलर") द्वारा जारी किए गए, एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, कंपनी ने इसकी सूचना भेज दी है 19वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 3, 2025 को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिंक के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटध्डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। कंपनी ने लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन सदस्यों को भी पत्र भेजा है जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, जिसमें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का वेब लिंक और उसके प्रासंगिक विवरण उपलब्ध हैं।
- इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 19वी वार्षिक आम बैठक की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट www.southwestpinnacle.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, क्रमश : www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठक पर जारी सचिवीय मानक–2 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले और उसके दौरान, सामान्य व्यवसाय और विशेष व्यवसाय के संबंध में, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से "रिमोट ई-वोटिंग"और "ई-वोटिंग" सुविधा प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः
- i. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के निर्देश और एजीएम से पहले या उसके दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट कैसे डाल सकते हैं, यह सब 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के भाग के रूप में प्रदान किया गया है।
- ii. रिमोट वोटिंग मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी। iii. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
- iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या वार्षिक आम बैठक में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 है।
- v. कोई भी व्यक्ति, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य

नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए।

- vi. सदस्य कृपया ध्यान दें कि: क) मतदान के लिए उपर्युक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी, ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, **ग)** जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नही होंगे, और घ) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या जमाकर्ताओं द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि तक दर्ज है, एजीएम से पहले/ उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- vii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या एनएसडीएल से ईमेल voting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
- viii. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से **evoting@nsdl.co.in** / 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी से investors@southwestpinnacle.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- 5. इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स केकेएस एंड एसोसिएटस के मालिक श्री कृष्ण कुमार सिंह को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान के लिए कंपनी सचिव नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान मतदान का परिणाम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.southwestpinnacle.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराए जाएँगे।
- बहीखाता बंद करने संबंधी विवरण।
- क. अधिनियम की धारा 91 और सेबी विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहीखाते वित्त वर्ष 2024–25 की 19वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शनिवार, 20 सितंबर, 2025 से शुक्रवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित)
- ख. कंपनी ने कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए कंपनी के सदस्यों के अधिकार का निर्धारण करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को 'कटऑफ तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।
- **ग.** डीमैट शेयरधारकों (कंपनी की 100% शेयरधारिता डीमैट रूप में) के लिए ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर के पंजीकरण हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पताध्मोबाइल नंबर/अन्य विवरण, संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके पंजीकृत करें।
- घ. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे संचार में आसानी और निर्बाध प्रेषण (कंपनी की 100% शेयरधारिता डीमैट रूप में) सुनिश्चित करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ विवरण (स्थायी आधार पर) अपडेट करें। जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते, मोबाइल नंबर और बैंक अधिदेश कंपनीधंडिपॉजिटरी रिकॉर्ड में पहले से ही अपडेट हैं, उन्हें कोई
- कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। 7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या वार्षिक आम बैठक में मतदान करना।
- 8. इस संबंध में सभी संचार / प्रश्न हमारे ई—मेल पते investors@southwestpinnacle.com पर भेजे जाने चाहिए।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिभिटेड हस्ताक्षरकर्ता/-विकास जैन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्थानः गुरुग्राम, दिनांकः 03.09.2025 डीन- 00049217

लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

वेबसाइटः www.lemontreehotels.com

ईमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com

सीआईएनः L74899DL1992PLC049022) **पंजीकृत कार्यालयः** एसेट नंबर ६, एरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नर्ड दिल्ली – 110037 दूरभाष संख्याः ०११ — ४६०५ ०१०१



33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और ई-वोटिंग सूचना

कंपनी की 33वीं एजीएम के लिए 29 अगस्त, 2025 को प्रकाशित नोटिस के अनुसार, जो गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को दोपहर 1:00 बजे (पेज) आयोजित होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, यह सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र 09 / 2024 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी 3 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी–पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 और समय–समय पर एमसीए और सेबी द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (सामुहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ 33वीं एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ वित्त वर्ष 2024—25 के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण शामिल हैं (इसके बाद ''एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट'' के रूप में संदर्भित), उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है. जिनके ईमेल पते 22 अगस्त. 2025 तक कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं।

कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजा है जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, जिसमें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक (।ळड) की सूचना का सीधा वेब लिंक प्रदान किया गया है। वार्षिक आम बैठक (AGM) की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.lemontreehotels.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसइ') की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। ईमेल के माध्यम से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया है। वीसी/ओएवीएम और ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है।

कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में रिमोट ई—वोटिंग और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही बैठक में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान करेगी।

रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 21 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (फ) से शुरू होकर बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (IST) तक चलेगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग सुविधा की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद एनएसडीएल रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देगा। जिन सदस्यों का नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के साथ–साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मतदान करने के भी हकदार होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अधिकार निर्धारण की अंतिम तिथि गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 है। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई–वोटिंग और सदस्यों द्वारा वार्षिक आम बैठक में ई—वोटिंग के तरीके की जानकारी और निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 को शेयर धारण करता है, वह अपना वोट डालने और वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताकर evoting@nsdl.com पर ईमेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, जो सदस्य पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए छैक्स के साथ पंजीकृत हैं, वे अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ई—वोटिंग (वार्षिक आम बैठक से पहले और वार्षिक आम बैठक के दौरान) से संबंधित किसी भी प्रश्न∕शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evotinq.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध ष्सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और वार्षिक आम बैठक में भागीदारी तथा सदस्यों के लिए दूरस्थ ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका'' देख सकते हैं या

022—48867000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सूश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर या अनुपालन अधिकारी को sectdeptt@lemontreehotels.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता / –

पवन कुमार कुमावत कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी मोबाइल नंबरः ए25377

muthoot HOUSING FINANCE

4. ऋण खाता संख्या 15600097633

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम- 695034, **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 12 / ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रेसेंजो, प्लॉट नंबर—सी 38 एवं सी 39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स—जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई—400051, **ई-मेल**: authorised.officer@muthoot.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्नर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड("एमएचएफसीएल") के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों, सह—उधारकर्ता, गारंटीकर्ता को संबंधित नोटिस जारी करने की तारीख और नोटिस का प्रकाशन जैसा कि नीचे दिया गया है और आप पर वैकल्पिक सेवा के माध्यम से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत और शुल्क सहित पूरे बकाया का भुगतान करके कंपनी के लिए अपनी देनदारी पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति (यों) को उक्त कर्जदारों, सह–उधारकर्ता, गारंटरों द्वारा क्रमशः एमएचएफसीएल को गिरवी रखा गया है।

	उधारकता /सह-उधारकता/ गारंटर का नाम	एनपीए की तिथि	माग सूचना की तिथि	कुल बकाया देयराष्ट्रि (रू.) भावी ब्याज लागू		
	ऋण खाता संख्या 15100119667 1. मेघश्याम राम कुमार	08 अगस्त 2025	20 अगस्त 2025	08 अगस्त 2025 तक रु. 9,56,735.36 (नौ लाख छप्पन हजार सात सौ पैंतीस		
	2. बबली मेघश्याम			रुपये एवं छत्तीस पैसे)		
	प्रतिभूति संपत्ति (संपत्तियों) /अचल संपत्ति (संपत्तियों) का विवरणः ग्राम पंचायत इनायतपुर, परगना सिकंदराबाद, तहसील और जिला					
ı	गौतम बद्ध नगर अत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय संपत्ति का वह सम्पर्ण हिस्सा एवं अंग्र। क्षेत्रफल 56.02 वर्ग मीटर है। सीमाएँ इस प्रकार					

हैं: पूर्व—15 फीट चौडी सडक पश्चिम:— करतार सिंह की संपत्ति उत्तरः सावित्री का प्लॉट दक्षिणः बिजेंद्र का प्लॉट,

08 अगस्त 2025 तक **₹.7,97,223.74** 13 अगस्त 2025 (सात लाख सत्तानबे हजार दो सौ तेईस 1. पजा जय प्रकाश 2. गौरव शर्मा रुपये और चौहत्तर पैसे मात्र) **प्रतिभृति संपत्ति (संपत्तियों) /अचल संपत्ति (संपत्तियों) का विवरणः** आवासीय सम्पत्ति वाले प्लॉट बीटिंग संख्या 11–बी, खसरा सं. 325, शिवम

गार्डन कॉलोनी, गाँव अच्छेजा, तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय संपत्ति का वह समपूर्ण हिस्सा एवं अंश, क्षेत्रफल 54 वर्ग गज है। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व-अन्य का प्लॉट पश्चिम- 20 फूट चौडी सडक उत्तरः प्लॉट संख्या 11-दक्षिणः प्लॉट संख्या 10 ऋण खाता संख्या MHFLCONMER000005020230 20-अगस्त-2025 तक रू. 6,17,247.21 /-

और MHFLPROMER000005021688 (छह लाख सत्रह हजार दो सौ सैंतालीस 1. इरशाद खान रुपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) और 2. शरीफ बशीर ₹. 7,96,344.37 / — (सात लाख छियानवे हजार तीन सौ चौवालीस रूपए एवं सैंतीस पैसे मात्र) 3. अफसाना शरीफ

प्रतिभृति संपत्ति (संपत्तियों) /अचल संपत्ति (संपत्तियों) का विवरणः खसरा संख्या ४५० के मकान का हिस्सा, क्षेत्रफल ९२.९४ वर्ग मीटर, ग्राम गोगांव, पी.एच. नंबर 107, रायपुर नगर निगम, तहसील रायपुर, छत्तीसगढ़ में संपत्ति का वह समपूर्ण हिस्सा और अंश। परिबद्धः पूर्व में हरि मोहन की जमीन, पश्चिम में कच्चा रास्ता, उत्तर में सूदर्शन साहू की जमीन, दक्षिण में माजी लाल की जमीन।

25-अगस्त-2025

०८ अगस्त

1. ललित सिंह (नौ लाख बयालीस हजार चार सौ बयालीस 2. उषा राधेश्याम 3. अभय सिंह रुपये और बावन पैसे मात्र) प्रतिभृति संपत्ति (संपत्तियों) /अचल संपत्ति (संपत्तियों) का विवरणः आवासीय परिसर मकान संख्या 58-ए, खसरा संख्या 13, कसेरू बक्सर, परगना, तहसील और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश। क्षेत्रफल 46.81 वर्ग गज है। सीमाएँ

इस प्रकार हैं: पूर्व- 15 फीट 1 इंच / रास्ता 20 फीट चौड़ा पश्चिम:- 9 फीट 10 इंच / प्लॉट संख्या 59, रीना त्यागी, उत्तर: 44 फीट 2 इंच / प्लॉट संख्या 58, अनिल भारद्वाज, दक्षिणः 45 फीट / प्लॉट संख्या 58, जसवीर सिंह 5 ऋण खाता संख्या 15600109627 08 अगस्त 2025 तक **रु.3,26,799.00/**— ०८ अगस्त 20-अगस्त-2025 1. पिंट भावर सिंह (तीन लाख छब्बीस सात सौ

2. बीना पिंटू 4. वीर पाल उर्फ घ्घ्वीरपाल सिंह निन्न्यानबे रुपये मात्र) प्रतिभृति संपत्ति (संपत्तियों) /अचल संपत्ति (संपत्तियों) का विवरणः खसरा संख्या 398 एम, पूष्प विहार, राजस्व ग्राम औरंगशहर गोलाबध, परगना और तहसील मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें क्षेत्रफल 50.36 वर्ग मीटर, यानी 60.24 वर्ग गज है। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व–15 फीट 5 इंच⁄रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम– 15 फीट 5 इंच⁄संजय का घर

उत्तरः 35 फीट 4 इंच / राजवीर का घर दक्षिणः 35 फीट / रास्ता 20 फीट चौडा

ऋण खाता संख्या MHFLPROMER000005018334 08 अगस्त 2025 तक **₹.7,04,442.35/**— ०८ अगस्त 12-अगस्त-2025 1. राजकुमार वर्मा (सात लाख चार हजार चार सौ बयालीस 2025 2. किरण वर्मा रुपये और पैंतीस पैसे मात्र) प्रतिभृति संपत्ति (संपत्तियों) /अचल संपत्ति (संपत्तियों) का विवरणः आवासीय फ्लैट सी-144,प्रथम तल, पॉकेट-सी, फेज -1, ''शरदपूरी

आवासीय योजना'', मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति का समस्त तुकड़ा एवं अंश, क्षेत्रफलः 32.60 वर्ग मीटर, सीमाएँः पूर्वः –3.765 मीटर, इसके बाद मकान संख्या सी–143, पश्चिमः – 3.765 मीटर, इसके बाद 3 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तरः 6.935 मीटर, इसके बाद मकान संख्या सी-141, दक्षिणः 6.935 मीटर, इसके बाद मकान संख्या सी-149, यदि उक्त उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता/ओं और गारंटीकर्ता/ओं उपरोक्तानुसार एमएचएफसीएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो

एमएचएफसीएल ऊपर उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने का हकदार होगा और कंपनी के लिए कानून में उपलब्ध अन्य कार्रवाई पुरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर करेगा। उक्त उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता/ओं और गारंटीकर्ता/ओं को सरफेरी अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (13) के प्रावधान के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति को एमएचएफसीएल की पूर्व सहमति के बिना चाहे बिक्री के माध्यम से, पट्टा या नोटिस में संदर्भित अन्यथा माध्यमों से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध हैं । स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः ०४ सितंबर, २०२५ हस्ता./-अधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

П muthool HOUSING FINANCE

दिनांकः 3 सितंबर, 2025

प्थानः नई दिल्ली

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मुख्द सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरुवनलपुरम-695 034, सीआईएन संख्या: U65922KL2010PLC025624, कॉपॉरेट कार्यालय : 12./ए, 01, 13वी मीजल, परिनी क्रीसेंजो, प्लॉट से. सीउड एवं सी39, बान्ता कुलां कॉम्पलेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुम्बई-400051, दूरभाष: 022-62728517, ई-मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com

मांग सचना

वितीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित के प्रचर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत बैसा कि अधेहरताक्षरी विनीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गटन एवं प्रतिभृति हित के प्रयत्तेन अधिनियम, 2002 के तहत मुख्ट हादसिंग फाइनेंस कम्पनी (''एमएनएफसीएल''). का ऑफकुर प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदार हो), सह-क जेदार(रीं), जमानतीर कों) से उन्हें निर्मत सम्बन्धित सुचनाओं जिन्हें उपर्युक्त के सम्बन्ध में नीचे भी दिया गया है, की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सुचनाओं में उल्लिखित राशि तथा अद्यातन ब्याज लावत एवं प्रभार अदा करने को कहते हुए कवित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत माँग सूचनाएँ निर्मत को हैं जो आप पर नीचे वर्णित के अनुसार वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित हैं। ऋग वे वकाया पुनर्भुगतान तेतु प्रतिभृति के रूप में क्रमतः कथित कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों), जमानती(यों) हात एमएचएफसीएल के पास निम्नतिक्षित प्रतिभृत आस्ति(यों) को बंधक रखा गया है।

क्र. सं.		एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	कुल बकाया राशि (रु.) भावी प्रयोज्य ब्याज
1	ऋण खाता संख्या 13100084130 1. मोहम्मद तोसिफ मंजूर अहमद 2. मोहम्मद ताहिर 3. रुकसाना बानो 4. मंजूर अहमद कुरैशी	29-जुलाई- 2025	25-अगस्त- 2025	25 अगस्त 2025 तक रु. 5,77,100.89/- (रुपए पाँच लाख सत्तहत्तर हजार एक सौ तथा नवासी पैसे मात्र)

प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः प्लॉट संख्या 247-ए, पेंटर कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित आवासीय भवन का समस्त भाग, क्षेत्रफल 41.73 वर्ग मीटर और उसके बाद निर्माण सीमाएँ: पूर्वः 15 फीट चौड़ी सरकारी सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 247 का शेष भाग, उत्तरः प्लॉट संख्या 248, दक्षिणः सामान्य मार्ग

2	ऋण खाता संख्या MHFLREFCTG0000050072351. गोपाल लाल मीणा2. पन्ना लाल गाडरी	29-जुलाई- 2025	14-अगस्त- 2025	14 अगस्त 2025 तक रु. 8,59,627.89/- (रुपए आठ लाख उनसठ हजार छह सौ सत्ताईस तथा नवासी पैसे मात्र)
- 1	प्रतिभत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण: पद संख्या	25 बही संख्या 14	८ आराजी संख्या	260 पर स्थित आवासीय आरसीसी भवन का समस्त भाग गाम

छिपया खेड़ी, ग्राम पंचायत सोनागर, तहसील बस्सी, जिला – चित्तौड़गढ़, राजस्थान, क्षेत्रफल 50 फीट 🗴 53 फीट, कुल क्षेत्रफल 2650 वर्ग फीट, मापः उत्तर दिशा – 53'' फीट, दक्षिण दिशा – 53'' फीट, पूर्व दिशा – 50'' फीट, पश्चिम दिशा – 50'' फ्टीट सीमाएँ: पूर्वः लालूराम पुत्र बरदा मीणा, पश्चिमः पड़त भूमि, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः कालू राम पुत्र मोहन लाल मीणा 3 ऋण खाता संख्या MHELPROA IM000005012771

	ऋण खाता संख्या MHFLPROAJM000005012771 1. चंद्र प्रकाश 2. विमला 3. मुकेश जांगिड़ 4. गंगा राम	08-अगस्त- 2025	12-अगस्त- 2025	11 अगस्त 2025 तक रु. 8,14,680.53/- (रुपए आठ लाख चौदह हजार छह सौ अस्सी तथा तिरपन पैसे मात्र)		
प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः पट्ट संख्या 01 का समस्त भाग, ग्राम त्योद, ग्राम पंचायत – त्योद, पंचायत सिमति – किशनगढ़, जिला – अजमेर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 395 वर्ग गज सीमाएँः पूर्वः श्रवण का मकान, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः अपना बाड़ा, फिर आम रास्ता, दक्षिणः ओम प्रका						
	<u> </u>					

4 ऋण खाता संख्या MHFLRESJP1000005004312 11 अगस्त 2025 तक रु. 11,63,578.85/-08-अगस्त-13-अगस्त-(रुपए ग्यारह लाख तिरसठ हजार पाँच सौ अठहत्तर 1. अभिषेक रावत तथा पिचासी पैसे मात्र) 2. लक्ष्मी रावत प्रितिभत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः आवासीय प्लॉट संख्या -115-ए का समस्त भाग, स्कीम रामेश्वरम, सिरसी रोड, ग्राम सिरसी, जयपुर,

राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 135 वर्ग गज यानी 1215 वर्ग फुट, मापः उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम - 56.6 फीट, दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम - 58 फीट, पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण – 21.03 फीट, पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण – 21.03 फ्टीट सीमाएँ: पूर्वः– अन्य की भूमि, पश्चिमः– 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 115, दक्षिणः प्लॉट संख्या 116 5 ऋण खाता संख्या MHFLPROJP2000005016491 11 अगस्त 2025 तक रु. 8,49,792.65/-08-अगस्त-12-अगस्त-

1. कैलाश चंद उर्फ कैलाश सैनी (रुपए आठ लाख उनचास हजार सात सौ बानवे 2025 2025 तथा पैंसठ पैसे मात्र) प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः प्लॉट संख्या ७ की आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, स्कीम जमना नगर, ई-ब्लॉक, विजयपुरा, बिंध्यका, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 59.78 वर्ग गज, मापः पूर्व से पश्चिम – 31 फीट 6 इंच, उत्तर से दक्षिण – 17 फीट 1 इंच सीमाएँ: पूर्व: जमना नगर – सी, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 8, दक्षिणः प्लॉट संख्या 6

6 ऋण खाता संख्या MHFLCONJP2000005007181 11 अगस्त 2025 तक रु. 12,54,208,51/-08-अगस्त-13-अगस्त-1.काना राम जाट 2.ललिता देवी (रुपए बारह लाख चौवन हजार दो सौ आठ तथा |3.सुभाष चंद जाट (जमानती) प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट संख्या 37 का भाग, स्कीम महादेव नगर-प्रथम, जोतावली, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 122.22 वर्ग गज यानी 102.20 वर्ग मीटर, मापः उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम – 50 फीट दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम – 50 फीट पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण – 22 फीट पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण – 22 फीट सीमाएँ: पूर्व:– 40 फीट रोड पश्चिम:– प्लॉट नं. 61 और 62 उत्तर: प्लॉट संख्या 20 ऋण खाता संख्या MHFLPURJP1000005011512 37 का शेष भाग दक्षिणः प्लॉट संख्या 36

7 ऋण खाता संख्या MHFLRESJP1000005020608 11 अगस्त 2025 तक रु. 14,84,155.93/-08-अगस्त-12-अगस्त-1. मोहम्मद इरशाद आलम 2. जीनत प्रवीण (रुपए चौदह लाख चौरासी हजार एक सौ पचपन 2025 2025 तथा तिरानबे पैसे मात्र) 3. अजय कुमार गुर्जर (जमानती) प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः आवासीय संपत्ति का समस्त भाग प्लॉट संख्या ए-139 का दक्षिण भाग, स्कीम छत्रपति शिवाजी नगर - 1-2 कलवाड़ बस स्टैंड, गाँव कलवाड़, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर सीमाएँ: पूर्व:- अन्य की भूमि, पश्चिम:- 30 फीट चौड़ी सड़क,

उत्तरः प्लॉट संख्या 139 का भाग, प्लॉट संख्या ए-139-ए के नाम से विख्यात, दक्षिणः प्लॉट संख्या 138 8 ऋण खाता संख्या 13100070100 एवं 13100077887 11 अगस्त 2025 तक रु. 7,78,749.07/-1. सुरेंद्र सुमेर सिंह (रुपए सात लाख अठहत्तर हजार सात सौ उनचास तथा सात 25-अगस्त-08-अगस्त-2. मधु कंवर पैसे मात्र) और रु. 1,77,975.54/- (रुपए एक लाख सतहत्तर 2025 हजार नौ सौ पचहत्तर तथा चौवन पैसे मात्र)

प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः आवासीय प्लॉट संख्या ए-202-ए का समस्त भाग, आवासीय योजना श्री गोविंद नगर-॥, निवारू रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, मापः पूर्व से पश्चिम - 30'' फीट, उत्तर से दक्षिण - 15'' फ्टीट सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट संख्या ए-203, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या ए-202-बी, दक्षिणः प्लॉट संख्या ए-202 9 ऋण खाता संख्या MHFLPROSHA000005020474 08-अगस्त- 12-अगस्त-11 अगस्त 2025 तक रु. 9,00,694.58/-

- 0	1. विक्रम सिंह 2. अमरी देवी 3. गुरुदयाल सिंह	2025	2025	(रुपए नौ लाख छह सौ चौरानवे तथा अद्ववन पैसे मात्र)
	प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः खसरा स	ांख्या ३२८, ग्राम र	सरुंड, पटवार हल्क	ज सरुंड, तहसील–कोटपुतली, जिला–जयपुर, (वर्तमान में जिला–
	कोटपुतली-बहरोड़) राजस्थान, क्षेत्रफल 319.81 वर्ग गज पर	स्थित आवासीय	संपत्ति का समस्त	भाग। सीमाएँ: पूर्वः 30 फीट सार्वजनिक मार्ग, पश्चिमः निजी भूमि,
	उत्तरः गोमाराम का मकान, दक्षिणः चिमनलाल का मकान।	07		
0	ऋण खाता संख्या MHFLPROSIK000005017907			11 अगस्त 2025 तक रु. 9,51,904.63/-

12-अगस्त-

2025

(रुपए नौ लाख इक्यावन हजार नौ सौ चार तथा

तिरसठ पैसे मात्र)

12-अगस्त- वा अगस्त २०२५ तक रु. ७,०२,९१२.२८/- (रुपए सात लाख दो

 0		2 10	
प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः ग्राम राड	की ढाणी, खसरा	संख्या ४७ पर स्थि	त आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, पटवार हल्का संगीला,
तहसील दांतारामगढ़, जिला – सीकर, राजस्थान, क्षेत्रफलः 305	.63 वर्ग गज, या	नी 255.54 वर्ग मी	टर, यानी 2750.32 वर्ग फुट सीमाएँ: पूर्वः भाई की आम गली,
पश्चिमः मग सिंह का मकान और खुली जमीन, उत्तरः गिफ़्टर की	ो संपत्ति, दक्षिणः	आम रास्ता	

08-अगस्त-

2025

08-अगस्त-

1. दलीप सिंह 2. गीता कंवर

11 ऋण खाता संख्या MHFLCONBHW000005009106

1. पीरू लाल 2. सुंदर देवी 2025 हजार नौ सौ बारह तथा अट्टाइस पैसे मात्र) प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः पट्ट संख्या 35, बही संख्या 161, आराजी संख्या 917 पर स्थित आवासीय प्लॉट का समस्त भाग, ग्राम नयातालाब, पंचायत समिति गंगरार, जिला - चित्तौड़गढ़, राजस्थान, क्षेत्रफल 880 वर्ग फुट, मापः उत्तर दिशा - 22'' फुट, दक्षिण दिशा - 22'' फुट, पूर्व दिशा 40'' फुट, पश्चिम दिशा - 40'' फुट

2 ऋण खाता संख्या MHFLPROBHW000005003920 11 अगस्त 2025 तक रु. 5,84,442.58/-और MHFLPROBHW000005009988 (रुपए पाँच लाख चौरासी हजार चार सौ बयालीस तथा अट्ठावन पैसे मात्र) 08-अगस्त-पहलाद उर्फ पहलाद रावल और रु. 3,29,638.91/- (रुपए तीन लाख उनतीस हजार छह 2025 2025 सौ अडतीस तथा इक्यानवे पैसे मात्र) 2. महेंद्र र७ावल 3. महेंद्र रावल प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः प्लॉट संख्या डी2/33 के दक्षिण भाग में आवासीय भवन का समस्त भाग, ''औद्योगिक आवास योजना'', प्रताप नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 12.3 फीट x 50 फ्टीट. सीमाएँ: पूर्वः 30 फीट रोड, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः मकान संख्या डी/2-33 का शेष भाग, दक्षिणः मकान संख्या

🛾 ऋण खाता संख्या MHFLPRORJS000005011367 |08-अगस्त-|13-अगस्त-11 अगस्त 2025 तक रु. 8,56,228.52/-. ईश्वर लाल कुमावत 2. लेहरी कुमावत 2025 2025 (रुपए आठ लाख छप्पन हजार दो सौ अट्टाईस तथा बावन पैसे मात्र) . नाना लाल कुमावत ४. धरम लाल (जमानती) प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः पद्म संख्या 30, बही संख्या 50, खसरा संख्या 779/447 पर आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, , ग्राम छापर खेड़ी, ग्राम

मकान, उत्तरः सामलाटी चौक, रास्ता, फिर धर्मपाल का मकान, दक्षिणः अंबालाल कीर का मकान 14 ऋण खाता संख्या MHFLCONUDR000005008518 11 अगस्त 2025 तक रु. 12,54,216.54/- (रुपए बारह लाख चौवन . मुकेश जगदीश उर्फ मुकेश हरिजन हजार दो सौ सोलह तथा चौवन पैसे मात्र) 2025

पंचायत तासोल, पंचायत समिति, जिला – राजसमंद, राजस्थान, क्षेत्रफल 928.15 वर्ग फुट सीमाएँ: पूर्वः– सेल्फ गैलरी, फिर हरिजन लाल का मकान, पश्चिमः– परसराम कुमावत क

प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः प्लॉट संख्या 111 पर स्थित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, हल्का आबादी, शाहजी की भागल, आवासीय कॉलोनी शक्ति

नगर-बी, भिंडर, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 1300 वर्ग गज, मापः उत्तरी ओर – 50 फीट, दक्षिणी ओर – 50 फीट, पूर्वी ओर – 26 फीट सीमाएँ: पूर्वः– 30 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड पश्चिमः– आवासीय प्लॉट संख्या 96 उत्तरः आवासीय प्लॉट संख्या 110 दक्षिणः 30 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड

15 ऋण खाता क्रमांक 10101096783 एवं 10101108565 11 अगस्त 2025 तक रु. 9,31,978.26/- (रुपए नौ लाख इकतीस हजार 08-अगस्त-

नौ सौ अठहत्तर तथा छब्बीस पैसे मात्र) और रु. 3,03,445.71/- (रुपए कोमल जैन 2. प्रियंका जैन 2025 3. हरीश चंद जैन (जमानती) तीन लाख तीन हजार चार सौ पैंतालीस तथा इकहत्तर पैसे मात्र) प्रतिभत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः खसरा संख्या 1367 के एक भाग पर स्थित आवासीय भवन का समस्त भाग, शक्ति नगर, आम का तालाब, ग्राम किरानीपरा, तहसील और जिला - अजमेर, राजा-स्थान में स्थित, क्षेत्रफल 1294.47 वर्ग फीट, अर्थात 143.83 वर्ग गज।

सीमाएँ: पूर्वः मंदिर और बालकिशन की संपत्ति, पश्चिमः गुलाब देवी की संपत्ति, उत्तरः मंदिर और 20 फुट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिणः हरदेव सिंह, शरद टंडन, हसना देवी की संपत्ति 16 ऋण खाता संख्या MHFLCONALW000005003146

11 अगस्त 2025 तक रु. 5,58,358.01/-08-अगस्त-23-अगस्त-. जय किशन 2. बबीता (रुपए पाँच लाख अट्ठवन हजार तीन सौ अट्ठवन तथा एक पैसा मात्र) . सुरेश चंद (जमानती) प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः संपत्ति का समस्त भागः आवासीय प्लॉट संख्या 11, खसरा संख्या 151, ग्राम बाघोड़ी, तहसील रामगढ़, जिला - अलवर, राजस्थान, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट यानी 166.66 वर्ग गज, और उसके बाद निर्माण, मापः पूर्वी ओर – 30'' फीट, पश्चिमी ओर – 30'' फीट, उत्तरी ओर – 50'' फीट, दक्षिणी ओर

18 ऋण खाता संख्या 13100081675 और

सीमाएँ: पूर्वः- प्लॉट संख्या 8 पश्चिमः- 20 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड उत्तरः प्लॉट संख्या 10 दक्षिणः प्लॉट संख्या 12 17 वित्रण खाता संख्या MHFLCONJP2000005014073 11 अगस्त 2025 तक रु. 10,58,490.03/-08-अगस्त-

्र बसंती देवी

(रुपए दस लाख अट्टावन हजार चार सौ नब्बे तथा तीन पैसे मात्र) प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः प्लॉट संख्या 47 पर स्थित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, स्कीम श्री बालाजी विहार – प्रथम, गाँव आकेड़ा डूगर, तहसील एवं जिला - जयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 57, मापः पूर्व से पश्चिम दिशा - 27 फीट उत्तर से दक्षिण दिशा - 19 फीट सीमाएँ: पूर्व:- अन्य की संपत्ति पश्चिम:- 30 फीट चौड़ी सड़क उत्तर: प्लॉट संख्या 46 दक्षिण: प्लॉट संख्या 48

11 अगस्त 2025 तक रु. 9,62,210.51/-MHFLCONJP2000005008834 (रुपए नौ लाख बासठ हजार दो सौ दस तथा इक्यावन पैसे मात्र) और 08-अगस्त-. योगेश कुमार टांक 2. शकुंतला उर्फ शकुंतला देवी 3. पवन रु. 4.94.924.95/- (रुपए चार लाख चौरानवे हजार नौ सौ चौबीस तथा 2025 2025 कुमार उर्फ पवन कुमार टांक (जमानती) प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः आवासीय प्लॉट संख्या 15 का समस्त भाग, रामपाल विहार, जेडीए स्कीम पालड़ी मीणा के पास, गोनेर रोड, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल – 150 वर्ग गज। सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट संख्या 16, पश्चिमः प्लॉट संख्या 24, उत्तरः प्लॉट संख्या 19, 20 और 21, दक्षिणः 30 फुट चौड़ी सड़क

19 ऋण खाता संख्या MHFLCONCTG000005019605 11 अगस्त 2025 तक रु. 11,40,873.49/-08-अगस्त-20-अगस्त-भगवान लाल गुर्जर (रुपए ग्यारह लाख चालीस हजार आठ सौ तिहत्तर तथा उनचास पैसे मात्र) 2025 2. हीरी बाई र्मतभूत आस्ति(याँ)/अचल संपत्ति(याँ) का विवरणः पद्व संख्या ०१, बही संख्या ७४, ग्राम पंचायत अभयपुर, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान स्थित

आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल – 1650 वर्ग फुट, मापः उत्तरी भाग – 66'' फीट दक्षिणी भाग – 66'' फीट पूर्वी भाग – 25'' फीट पश्चिमी भाग – 25'' फीट सीमाएँ: पूर्व: खुला प्लॉट पश्चिम: आम रास्ता उत्तर: भगवान लाल / खेमा गुर्जर का मकान दक्षिण: देवी लाल पुत्र खेमा गुर्जर का मकान स्वर्गीय शेर सिंह उर्फ शेर सिंह बैरवा के विधिक उत्तराधिकारी

22 जुलाई 2025 तक रु. 15,60,141.00/-

(रुपए पंद्रह लाख साठ हजार एक सौ इकतालीस मात्र)

04 जुलाई 2025 तक रु. 2,96,273.49/-

उत्तराधिकारी (पत्नी)) 29-दिसंबर-||24-जुलाई-. राहुल बैरवा (स्वर्गीय कर्जदार के विधिक उत्तराधिकारी 2025 (पुत्र)) ४. रिंकू बैरवा (स्वर्गीय कर्जदार का विधिक उत्तराधिकारी (पुत्र)) 5. पवन बैरवा (स्वर्गीय कर्जदार का विधिक उत्तराधिकारी (पुत्र))

2. राजंती देवी (स्वर्गीय कर्जदार के सह-कर्जदार तथा विधिक

प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः आवासीय प्लॉट संख्या 6 का समस्त भाग, प्रताप नगर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जयपुर पंजीकरण संख्या 2451 एल, आवास योजना बालाजी धाम गाँव, ग्राम लुनियावास, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला - जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, और उसके बाद निर्माण 60 वर्ग गज, मापः पूर्व से पश्चिमः 28.5 फीट उत्तर से दक्षिणः 19 फीट सीमाएँ: पूर्व:- 30 फीट गोधा रोड पश्चिम:- 25 फीट चौड़ी सड़क उत्तर: अन्य की भूमि दक्षिण: प्लॉट संख्या 7

ऋण खाता संख्याः MHFLPROCTG000005006981

03 जून 2025 तक रु. 2,30,363.00/-29-मई-04-जून-और MHFLPROCTG000005002137 (रुपए दो लाख तीस हजार तीन सौ तिरसठ मात्र) और रु. 5,12,259.00/-2025 2025 . भैरू लाल 2. कली बाई (रुपए पाँच लाख बारह हजार दो सौ उनसठ मात्र) प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः पट्ट संख्या 33, बही संख्या 109, ग्राम मिर्चिया खेड़ी, ग्राम पंचायत बलवास, पंचायत समिति रश्मि, तहसील रश्मि, जिला चित्तौड़गढ़ - 312206 पर आवासीय प्लॉट का समस्त भाग, क्षेत्रफल 1460 वर्ग फुट।

सीमाः पूर्वः सड़क, पश्चिमः राम/उदय कुमार की कृषि भूमि, उत्तरः कैलाश का मकान, दक्षिणः पायरा का मोहरा 22 ऋण खाता संख्याः 13250105576

_	————— MUEL BROB 10000005000500			
	सीमाएँ: पूर्वः - बाबू खान पश्चिमः - रास्ता उत्तरः बरातून दक्षिणः व	बरकत अली		
	क्षेत्रफल 299 वर्ग गज			
	प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः पट्ट संख्या 3	0, बही संख्या 41	6 पर संपत्ति का स	मस्त भाग, ग्राम रिड़मलसर, सिपहियान, बीकानेर, राजस्थान – 334001
	1. शोकत 2. राबिया बानो	2025	2025	(रुपए दो लाख छियानवे हजार दो सौ तिहत्तर तथा उनचास पैसे मात्र)

04-जुलाई-2025 रु. 5,41,082.15/-23 ऋण खाता संख्याः MHFLPRORJS000005000798 24-जुलाई-29-जून-. किशन सिंह भाटी 2. देवी कुंवर (रुपए पाँच लाख इकतालीस हजार बयासी तथा पंद्रह पैसे मात्र) प्रितिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरणः पट्ट संख्या 49, आराजी संख्या 238 वाली संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम पंचायत - पिपलंतरी, पंचायत सिमित - राजसमंद जिला राजसमंद, राजस्थान - 313334 में स्थित, क्षेत्रफल 1804 वर्ग फुट सीमाएँ: पूर्वः किशन सिंह का बेसमेंट हाउस, फिर सड़क, पश्चिमः स्वयं की कृषि भूमि, उत्तरः स्वयं की भूमि और सड़क दक्षिणः स्वयं की भूमि

यदि कथित कर्जदार, सह-कर्जदार एवं जमानती उपर्युक्त के अनुसार एमएचएफसीएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो एमएचएफसीएल उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने तथा कर्जदारों को पर्ण जोखिम, लागत एवं परिणामों पर कानन के अनसार कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य कार्यवाहियों को करने का पात्र होगा। कथित कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) तथा जमानतियों को सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (13) के तहत उपर्युक्त प्रतिभृति आस्ति(यों) को सूचना में सन्दर्भित बिक्री,

पट्टे या अन्यथा विधि से एमएचएफसीएल की पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। स्थान : राजस्थान, तिथि : 04 सितम्बर, 2025 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

epaper.jansatta.com

सीमाएँ: पूर्वः सोहनी बाई का मकान, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः आम रास्ता, फिर नाराणी देवी की दीवार, दक्षिणः मुकेश पुत्र काल् भील का मकान